

All Inclusive IAS - Prelims 2024

English video

Economy Class-05

हिंदी वीडियो

Nobel Prize in Economics




Claudia Goldin

2023 Nobel Prize in Economics
Research: Women in labour market

क्लाउडिया गोल्डिन
2023 अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार
अनुसंधान: श्रम बाजार में महिलाएं

Female LFPR and Economic growth are proportionately related? No
As economy grows, female LFPR first falls, then rises.

महिला LFPR और आर्थिक विकास आनुपातिक रूप से संबंधित हैं? नहीं जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है, महिला LFPR पहले गिरती है, फिर बढ़ती है



U-shaped curve

Low income country → high female LFPR
Middle income country → low female LFPR
High income country → high female LFPR

यू-आकार का वक्र

कम आय वाला देश → उच्च महिला LFPR
मध्यम आय वाला देश → निम्न महिला LFPR
उच्च आय वाला देश → उच्च महिला LFPR

Female LFPR is influenced by?

- ✓ Social Norms
- ✓ Education Levels
- ✓ Fertility Rates
- ✓ Technology
- ✓ Security
- ✓ Childcare Facilities
- ✓ Earnings Gap
- ✓ Career Expectation

महिला LFPR किससे प्रभावित होता है?

- ✓ सामाजिक आदर्श
- ✓ शिक्षा स्तर
- ✓ प्रजनन दर
- ✓ तकनीकी
- ✓ सुरक्षा
- ✓ चाइल्डकेअर सुविधाएं
- ✓ कमाई का अंतर
- ✓ करियर की उम्मीदें

Which of the following have a bearing on female LFPR in India?

- ✓ Article 39(d) of Constitution
- ✓ Maternity Benefit Act 1961/2017
- ✓ Equal Remuneration Act 1976
- ✓ Factories Act 1948
- ✓ Mines Act 1952
- ✓ POSH Act 2013
- and many more...

निम्नलिखित में से किसका भारत में महिला LFPR पर प्रभाव पड़ता है?

- ✓ संविधान का अनुच्छेद 39(d).
- ✓ मातृत्व लाभ अधिनियम 1961/2017
- ✓ समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976
- ✓ कारखाना अधिनियम 1948
- ✓ खान अधिनियम 1952
- ✓ पौश अधिनियम 2013
- और भी कई...

Note: Parliament passed 4 labor codes in 2020, but the government has not implemented them yet (April 2024)

नोट: संसद ने 2020 में 4 श्रम कोड पारित किए थे, लेकिन सरकार ने अभी तक (अप्रैल 2024) उन्हें लागू नहीं किया है

Nobel Prize



Nobel Foundation (1900, Stockholm)

- It is a private institution
- It is based on the Will of Alfred Nobel, inventor of dynamite

नोबेल फाउंडेशन (1900, स्टॉकहोम)

- यह एक निजी संस्थान है
- यह डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत पर आधारित है


<https://www.nobelprize.org/frequently-asked-questions>

- Up to **three** individuals can share a prize.
- Prize **cannot** be awarded **posthumously**.
- Once awarded, prize **cannot be revoked**.
- Peace** prize can be given to **organisations**.
- Prizes are given on **10 December** every year.
- Self-nomination is not allowed.
- Nominations can be made public only after 50 years of nomination.

- अधिकतम 3 व्यक्ति पुरस्कार साझा कर सकते हैं।
- पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता है।
- एक बार पुरस्कार देने के बाद, पुरस्कार रद्द नहीं किया जा सकता है।
- संगठनों को शांति पुरस्कार दिया जा सकता है।
- पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को दिए जाते हैं।
- स्व-नामांकन की अनुमति नहीं है।
- नामांकन के 50 साल बाद ही नामांकन सार्वजनिक किए जा सकते हैं।



Separate explanation videos are available in English & Hindi

अंग्रेजी और हिंदी में अलग-अलग वीडियो उपलब्ध हैं

5-person committee elected by Norwegian Parliament Peace NORWAY : OSLO 	Literature → Swedish Academy Medicine (Physiology) → Karolinska Institute Physics, Chemistry, Economics → Swedish Academy of Science SWEDEN : STOCKHOLM
	Economics: since 1969 <input type="checkbox"/> Not mentioned in Will <input type="checkbox"/> Money comes from Sweden's Central Bank (Sveriges Riksbank) Others: since 1901 <input type="checkbox"/> Mentioned in Will <input type="checkbox"/> Money comes from interest on wealth of Alfred Nobel

अर्थशास्त्र: 1969 से <input type="checkbox"/> वसीयत में नहीं है <input type="checkbox"/> पैसा स्वीडन के सेंट्रल बैंक (Sveriges Riksbank) से आता है अन्य: 1901 से <input type="checkbox"/> वसीयत में है <input type="checkbox"/> पैसा अल्फ्रेड नोबेल के धन पर ब्याज से आता है

Gig Economy

Non-platform gig worker  construction worker rickshaw puller	Platform gig worker  Zomato, freelancer.in	What are the reasons for rise of gig economy? What is the significance of gig economy? ➤ Use common sense. Probably, all options will be correct. गिग इकॉनमी के बढ़ने के क्या कारण हैं? गिग इकॉनमी का महत्त्व क्या है ? ➤ बुद्धि का प्रयोग करें। शायद, सभी विकल्प सही होंगे।
Platform India initiative ? Proposed by Niti Aayog, to promote gig economy	प्लेटफार्म इंडिया पहल? गिग इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित	
First state to enact law for Gig workers? Rajasthan (July, 2023) Link	गिग श्रमिकों के लिए कानून बनाने वाला पहला राज्य? राजस्थान (जुलाई, 2023)	
<input type="checkbox"/> Labour is in concurrent list. <input type="checkbox"/> 44 central laws, more than 100 state laws. <input type="checkbox"/> 44 central laws were compressed into 4 labour codes. <input type="checkbox"/> They include provisions for gig workers also. <input type="checkbox"/> Parliament passed them in 2019/20. <input type="checkbox"/> But they are yet to be notified.	<input type="checkbox"/> श्रम समवर्ती सूची में है <input type="checkbox"/> 44 केंद्रीय कानून, 100 से अधिक राज्य कानून <input type="checkbox"/> 44 केंद्रीय कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में संकुचित किया गया <input type="checkbox"/> इनमें गिग वर्कर्स के लिए भी प्रावधान शामिल हैं <input type="checkbox"/> संसद ने उन्हें 2019/20 में पारित किया था <input type="checkbox"/> लेकिन उन्हें अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है	
NITI report on Gig workers: Link <ul style="list-style-type: none"> By 2030, Gig workforce may expand to 2.35 crore Maximum gig workers are in Retail trade and sales During 2012-2020, Employment elasticity for gig workers <ul style="list-style-type: none"> was above overall employment elasticity was above 1 $\text{Employment elasticity} = \frac{\% \text{ change in employment}}{\% \text{ change in GDP}}$	<ul style="list-style-type: none"> 2030 तक गिग कार्यबल बढ़कर 2.35 करोड़ हो सकता है सबसे ज्यादा गिग वर्कर खुदरा व्यापार और बिक्री में हैं 2012-2020 के दौरान, गिग श्रमिकों के लिए रोजगार लोच <ul style="list-style-type: none"> समग्र रोजगार लोच से ऊपर था 1 से ऊपर था $\text{इम्प्लॉइमेंट ईलैस्टिसिटी} = \frac{\text{रोजगार में \% परिवर्तन}}{\text{जीडीपी में \% बदलाव}}$	
e-shram portal (by Ministry of Labour and Employment) <input type="checkbox"/> It is National database of unorganized workers <input type="checkbox"/> Eligibility: <ul style="list-style-type: none"> Age between 16-59 years Not a member of EPFO/ESIC or NPS <input type="checkbox"/> Includes: <ul style="list-style-type: none"> construction Workers, migrant Workers, Gig and Platform workers, Street Vendors, Domestic Workers, Agriculture Workers, etc. 	ई-श्रम पोर्टल (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा) <input type="checkbox"/> यह असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस है <input type="checkbox"/> पात्रता: <ul style="list-style-type: none"> उम्र 16-59 साल के बीच EPFO/ESIC या NPS का सदस्य न हो <input type="checkbox"/> इसमें शामिल हैं : <ul style="list-style-type: none"> निर्माण श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, गिग और प्लेटफार्म श्रमिक, फेरी वाले, घरेलू श्रमिक, कृषि श्रमिक, आदि 	


Cash Reserve Ratio

Prelims 2010 When the Reserve Bank of India announces an increase of the **Cash Reserve Ratio**, what does it mean?

- (a) Commercial banks will have less money to lend
- (b) RBI will have less money to lend
- (c) Union Government will have less money to lend
- (d) Commercial banks will have more money to lend

जब भारतीय रिज़र्व बैंक नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है, तो इसका क्या अर्थ है?


- (a) वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसा होगा
- (b) RBI के पास उधार देने के लिए कम पैसे होंगे
- (c) केंद्र सरकार के पास उधार देने के लिए कम पैसे होंगे
- (d) वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए अधिक पैसा होगा



Repo: (and MSF)

Banks borrow money from RBI by lending securities.


बैंक RBI से सिक्योरिटीज उधार देकर पैसा उधार लेते हैं



Reverse repo:

RBI borrows money from banks by lending securities.


RBI प्रतिभूतियों को उधार देकर बैंकों से पैसा उधार लेता है




Standing Deposit Facility:

RBI borrows money from banks without lending securities.

RBI बिना प्रतिभूतियों के बैंकों से पैसा उधार लेता है



Surplus of RBI



Committees to determine ideal size of RBI's reserves

- 1997 V Subrahmanyam
- 2004 Usha Thorat
- 2013 Y H Malegam
- 2018 Bimal Jalan

Section 47 of RBI Act 1934
RBI shall transfer surplus to Centre.

RBI अधिनियम 1934 की धारा 47
RBI अधिशेष लाभ को केन्द्र को अंतरित करेगा।

Section 48 of RBI Act 1934
RBI is exempt from paying income tax.

RBI अधिनियम 1934 की धारा 48
RBI को आयकर का भुगतान करने से छूट है।

Bimal Jalan Committee 2018 revised Economic Capital Framework:

- **Realised equity** 5.5 - 6.0% of balance sheet
- **Economic capital** 20-24.5% of balance sheet

After reserving the above, RBI should transfer the surplus to govt.

बिमल जालान समिति 2018 ने आर्थिक पूंजी ढांचे को संशोधित किया :

रियलाइज्ड इक्विटी बैलेंस शीट का 5.5 - 6.0%

आर्थिक पूंजी बैलेंस शीट का 20 - 24.5%

उपरोक्त को आरक्षित करने के बाद, RBI को अधिशेष पैसा को सरकार को हस्तांतरित करना चाहिए।

Separate explanation videos are available in English & Hindi

अंग्रेजी और हिंदी में अलग-अलग वीडियो उपलब्ध हैं

End of LIBOR

Financial benchmarks are reference rates, used for pricing financial contracts.

India	Mmifor	Modified Mumbai Interbank Forward Outright Rate
USA	Sofr	Secured Overnight Financing Rate
UK	Sonia	Sterling Overnight Index Average
Swiss	Saron	Swiss Average Rate Overnight
Europe	Euribor	Euro Interbank Offered Rate
China	Shibor	Shanghai Interbank Offered Rate
Japan	Tibor	Tokyo Interbank Offered Rate
Japan	Tonar	Tokyo Overnight Average Rate

वित्तीय बेंचमार्क संदर्भ दरें हैं, जिनका उपयोग वित्तीय अनुबंधों के मूल्य निर्धारण के लिए किया जाता है।

Libor, Mifor बंद हैं
Mibor, Mmifor चालू हैं

June 2023 : RBI : [Link](#)
Libor , Mifor gone
Mibor , Mmifor continue

13 May 2023 – Indian Express – [Link](#)

RBI tells banks to complete transition from LIBOR by July

- ❖ Banks and private companies were using LIBOR as the benchmark rate for raising funds abroad.
- ❖ RBI has instructed them to adopt a widely accepted Alternative Reference Rate, such as SOFR, to complete the transition from LIBOR and MIFOR.
- ❖ SOFR is considered a more accurate and more secure pricing benchmark.

RBI ने बैंकों से जुलाई तक LIBOR से ट्रांज़िशन पूरा करने को कहा

- बैंक और निजी कंपनियाँ विदेश में धन जुटाने के लिए LIBOR को बेंचमार्क दर के रूप में उपयोग कर रहे थे।
- RBI ने उन्हें LIBOR और MIFOR से हटकर, SOFR जैसी व्यापक रूप से स्वीकृत वैकल्पिक संदर्भ दर को अपनाने का निर्देश दिया है।
- SOFR को अधिक सटीक और अधिक सुरक्षित मूल्य निर्धारण बेंचमार्क माना जाता है।

12 May 2023 – RBI Press release – [Link](#)

In 2021, Financial Conduct Authority (UK) announced

- Libors that will stop from December 2021: Pound, Euro, Swiss franc, Japanese yen, US Dollar (1-week and 2-month)
- Remaining US dollar Libors will stop from June 30, 2023
- ❖ FBIL will not publish MIFOR after 30 June 2023
- ❖ New transactions should not use LIBOR or MIFOR
- ❖ Fallbacks should be included in existing financial contracts

2021 में, वित्तीय आचरण प्राधिकरण (UK) ने घोषणा की

- Libor जो दिसंबर 2021 से बंद हो जाएंगे: पाउंड, यूरो, स्विस् फ्रैंक, जापानी येन, US डॉलर (1-सप्ताह और 2-महीने)
- शेष US डॉलर Libor 30 जून, 2023 से बंद हो जाएंगे
- ❖ FBIL 30 जून 2023 के बाद MIFOR प्रकाशित नहीं करेगा
- ❖ नए लेनदेन LIBOR या MIFOR का उपयोग न करे
- ❖ मौजूदा वित्तीय अनुबंधों में फॉलबैक को शामिल किया जाए

Financial Benchmarks India Pvt Ltd

It is a private company
It was formed in 2014, HQ Mumbai
It is regulated by RBI under RBI Act, 1934

- यह एक निजी कंपनी है
- गठन 2014 में हुआ, मुख्यालय मुंबई में है
- यह RBI अधिनियम, 1934 के तहत RBI द्वारा विनियमित है

FBIL publishes financial benchmarks for

- govt securities / fixed income securities
- money market / interest rates
- foreign exchange
- derivatives

Functions of FBIL

- collect market data
- formulate calculation methodology
- calculate and publish benchmarks

- बाजार डेटा एकत्र करना
- गणना पद्धति तैयार करना
- बेंचमार्क की गणना और प्रकाशन करना

2013	RBI set up a committee on financial benchmarks under Vijaya Bhaskar	RBI ने विजया भास्कर के तहत वित्तीय बेंचमार्क पर एक समिति की स्थापना की
2014	RBI identified FIMMDA and FEDAI as benchmark administrators	RBI ने FIMMDA और FEDAI को बेंचमार्क प्रशासक के रूप में पहचाना
2014	FBIL formed by FIMMDA, FEDAI, IBA	FIMMDA, FEDAI, IBA ने FBIL बनाई

FIMMDA Fixed Income Money Market & Derivatives Association
FEDAI Foreign Exchange Dealer's Association of India
IBA Indian Bank's Association

Significant Benchmarks published by FBIL (Link)

- ✓ Modified Mumbai Interbank Forward Outright Rate (MMIFOR)
- ✓ Valuation of State Development Loans (SDL)
- ✓ Overnight Mumbai Interbank Outright Rate (MIBOR)
- ✓ Valuation of Government Securities
- ✓ USD/INR Reference Rate
- ✓ Treasury Bill Rates

Separate explanation videos are available in English & Hindi

अंग्रेजी और हिंदी में अलग-अलग वीडियो उपलब्ध हैं

SEBI

SEBI was established in 1988.
In 1992, it was made statutory body by SEBI Act 1992

SEBI की स्थापना 1988 में हुई थी।
1992 में, इसे SEBI Act 1992 द्वारा वैधानिक निकाय बनाया गया

Organizational Structure:

- 1 chairperson
 - 1 from RBI
 - 2 from Finance Ministry
 - 5 other members of whom at least 3 shall be whole-time members
- All are appointed by Central Govt.

संगठनात्मक संरचना :

- 1 अध्यक्ष
 - 1 RBI से
 - 2 वित्त मंत्रालय से
 - 5 अन्य सदस्य जिनमें से कम से कम 3 पूर्णकालिक सदस्य होंगे
- सभी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

SEBI is

quasi-legislative: make regulations
quasi-executive: enforce them
quasi-judicial : pass rulings

Functions:

Regulate stock market
Stop insider trading
and much more...

SEBI है

अर्ध-विधायी: नियम बनाएं
अर्ध-कार्यकारी: विनियम लागू करें
अर्ध-न्यायिक: निर्णय पारित करें

कार्य :

शेयर बाजार को विनियमित करना
इनसाइडर ट्रेडिंग रोकना
और भी बहुत कुछ...

Securities Laws (Amendment) Act, 2014

SEBI can regulate any money pooling scheme worth ₹ 100 crore or more and attach assets in cases of noncompliance

SEBI 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक की किसी भी मनी पूलिंग योजना को विनियमित कर सकता है और गैर-अनुपालन के मामलों में संपत्ति कुर्क कर सकता है

Investor Risk Reduction Access [Link](#)

- ✓ Launched by SEBI.
- ✓ Jointly developed by all stock exchanges.
- ✓ Investors can close open positions and cancel pending orders. Investors cannot place fresh orders.
- ✓ It aims to protect investors when trading member (broker) faces technical issues.
- ✓ Stock exchanges can suo moto initiate IRRA without request from broker.

- ✓ SEBI द्वारा लॉन्च किया गया।
- ✓ सभी स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित।
- ✓ निवेशक खुले पदों को बंद कर सकते हैं और लंबित आदेशों को रद्द कर सकते हैं। निवेशक नए ऑर्डर नहीं दे सकते हैं।
- ✓ इसका उद्देश्य निवेशकों की रक्षा करना है जब ट्रेडिंग सदस्य (ब्रोकर) तकनीकी परेशानियों का सामना कर रहे हों।
- ✓ स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर के कहे बिना भी स्वतः संज्ञान लेकर IRRA आरंभ कर सकते हैं।

Investor Protection Fund [Link](#)

- All stock exchanges and Depositories shall establish IPF.
- IPF of the stock exchange and depository shall be administered through separate trusts.

Source of funds

IPF of Stock Exchange: interest, penalty, 1% of listing fee, etc.

IPF of Depository: interest, penalty, 5% of profits, etc.

Funds can be invested in G-sec, bank FD, etc.

Use of funds:

To meet legitimate claims of investors

To promote investor education and awareness

- सभी स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी IPF स्थापित करेंगे।
- स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी के IPF को अलग-अलग ट्रस्टों द्वारा प्रशासित किया जाएगा।

धन का स्रोत :

स्टॉक एक्सचेंज का IPF: ब्याज, जुर्माना, लिस्टिंग शुल्क का 1%, आदि

डिपॉजिटरी का IPF: ब्याज, जुर्माना, लाभ का 5%, आदि
फंड का निवेश G-sec, बैंक FD, आदि में किया जा सकता है

धन का उपयोग :

निवेशकों के वैध दावों को पूरा करने के लिए

निवेशकों की शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए

Investor Service Fund (at stock exchange) [Link](#)

Supervision by Regulatory Oversight Committee[#]

Source of funds 20% of listing fees

Use of funds

To promote investor education and awareness

50% of funds should be used in Tier-II & Tier-III cities

Regulatory Oversight Committees are formed for Market Infra institutions (Exchange, Depository, Clearing house)

ISF की निगरानी "विनीयामकीय निरीक्षण समिति" द्वारा की जाएगी

धन का स्रोत : लिस्टिंग फीस का 20%

धन का उपयोग

निवेशक शिक्षा और जागरूकता को बढ़ाने के लिए

50% पैसा टियर-II और टियर-III शहरों में खर्च होना चाहिए

"विनीयामकीय निरीक्षण समिति" "मार्केट इन्फ्रा इन्स्ट्रुक्शंस" (एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, क्लियरिंग हाउस) के लिए होती है

Investor Protection and Education Fund [Link](#)

- It was established in 2007 by SEBI
- It is used to protect investors and promote investor education and awareness.

If a stock exchange or Depository is shut down, money in its IPF / ISF shall be transferred to IPEF of SEBI

निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष

- इसकी स्थापना 2007 में SEBI द्वारा की गई थी
 - इसका उपयोग निवेशकों की सुरक्षा के लिए और निवेशक शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है
- यदि कोई स्टॉक एक्सचेंज या डिपॉजिटरी बंद हो जाता है, तो उसके IPF / ISF का पैसा SEBI के IPEF में जाएगा

Separate explanation videos are available in English & Hindi

अंग्रेजी और हिंदी में अलग-अलग वीडियो उपलब्ध हैं

<p>SEBI has reduced timeline for listing of IPOs from T+6 days to T+3 days.</p> <p>IPO is the largest source of funds for the company? Not necessary</p>		<p>IPO</p>	<p>SEBI ने IPO की लिस्टिंग की समय-सीमा T+6 दिनों से T+3 दिनों तक कम कर दी है।</p> <p>IPO कंपनी के लिए फंड का सबसे बड़ा स्रोत होता है? जरूरी नहीं है</p>	
<p>Before IPO</p>	<p>Primary market (IPO)</p>	<p>Secondary market (BSE/NSE)</p>	<p>Primary market (FPO)</p>	
<p>100%</p>	<p>70%</p>	<p>70%</p>	<p>60%</p>	

<p>SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015</p> <p>ESG reporting / Sustainability reporting</p> <p>Disclose Environmental, Social, Governance impact of business.</p> <p>2012: SEBI introduced BRR (Business Responsibility Report)</p> <p>2021: SEBI introduced BRSR (Business Responsibility & Sustainability Report) Mandatory for top 1000 listed firms by market cap. It should be included in company's annual report.</p> <p>2023: SEBI introduced BRSR core (part of BRSR). It has KPIs for 9 ESG attributes FY-24 to FY-27: 150-250-500-1000 top firms by market cap. It includes impact of 75% of value chain on environment.</p> <p>9 ESG attributes include:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ GHG ✓ water ✓ energy ✓ circularity (waste mgmt) ✓ inclusive development ✓ Employee well-being ✓ Gender diversity ✓ openness of business ✓ fairness in engaging with customers and suppliers 		<p>ESG reporting</p>	<p>BRR व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट BRSR व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट</p> <p>व्यापार के पर्यावरणीय, सामाजिक, शासन प्रभावों का खुलासा करें</p> <p>2012: SEBI ने BRR पेश किया</p> <p>2021: SEBI ने BRSR पेश किया मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 1000 लिस्टेड कंपनियों के लिए अनिवार्य। इसे कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करना होगा।</p> <p>2023: SEBI ने BRSR कोर (BRSR का हिस्सा) पेश किया। इसमें 9 ESG विशेषताओं के लिए KPI हैं 2024 से 2027: टॉप 150-250-500-1000 फर्म। इसमें 75% मूल्य श्रृंखला का पर्यावरण पर प्रभाव शामिल है</p> <p>9 ESG विशेषताओं में शामिल हैं :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ GHG ✓ जल ✓ ऊर्जा ✓ परिपत्र (वेस्ट मैनिज्मेंट) ✓ समावेशी विकास ✓ कर्मचारी कल्याण ✓ लैंगिक विविधता ✓ व्यापार का खुलापन ✓ ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ जुड़ने में निष्पक्षता 	
---	--	-----------------------------	--	--

<p>Dabba / Box / Bucket trading</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ It is informal trading done outside the stock exchanges (NSE, BSE, etc) ✓ People bet on stock price movement, without transferring ownership of shares. ✓ It is illegal under Securities Contracts (Regulation) Act 1956 (SCRA). (10 year jail, 25 crore fine). ✓ Govt and stock exchange incur loss of revenue due to dabba trading. (Securities Transaction Tax, GST, Income Tax) 		<p>Dabba trading</p>	<p>डब्बा ट्रेडिंग / बॉक्स ट्रेडिंग / बकेट ट्रेडिंग</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ यह स्टॉक एक्सचेंजों (NSE, BSE, आदि) के बाहर किया गया अनौपचारिक व्यापार है ■ लोग शेयरों को खरीदे बिना, शेयरों के मूल्य पर दांव लगाते हैं। ■ यह प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम 1956 (SCRA) के तहत अवैध है। (10 साल की जेल, 25 करोड़ जुर्माना) ■ डब्बा ट्रेडिंग के कारण सरकार और स्टॉक एक्सचेंज को राजस्व का नुकसान होता है। (प्रतिभूति लेनदेन कर, GST, आयकर) 	
---	--	-----------------------------	--	--

<p>Govt launched two initiatives to deepen corporate bond market</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ AMC Repo Clearing Corporation Ltd ■ Corporate Debt Market Development Fund <p>Note: Both are regulated by SEBI</p>		<p>Debt market</p>	<p>कॉरपोरेट बांड बाजार को सशक्त करने के लिए सरकार के दो कदम</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ AMC रेपो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ■ कॉरपोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड <p>नोट: दोनों SEBI द्वारा विनियमित हैं</p>	
---	--	---------------------------	--	--

<p>AMC Repo Clearing Corporation Limited</p> <ul style="list-style-type: none"> It is a limited purpose clearing corporation It will act as a central counterparty in corporate bond repo market. It will allow bond holders to meet their short term liquidity needs without having to liquidate their assets 	<ul style="list-style-type: none"> यह एक सीमित उद्देश्य समाशोधन निगम है यह कॉरपोरेट बॉन्ड रेपो बाजार में केंद्रीय प्रतिपक्ष के रूप में कार्य करेगा। इससे बांड धारक संपत्ति बेचे बिना अपनी अल्पकालिक तरलता जरूरतों को पूरा कर पाएंगे
<p>Corporate Debt Market Development Fund (CDMDF)</p> <ul style="list-style-type: none"> In times of stress, CDMDF will purchase eligible corporate bonds from Mutual Funds, and sell later when markets recover. It can purchase investment grade bonds in normal times also. The units of CDMDF shall be subscribed by Asset Management Companies (AMCs) of Mutual Funds (MFs) It has been established as an Alternative Investment Fund 	<ul style="list-style-type: none"> तनाव के समय में, CDMDF म्यूचुअल फंड से योग्य कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदेगा, और बाद में बाजार में सुधार होने पर बेच देगा यह सामान्य समय में भी निवेश ग्रेड बांड खरीद सकता है CDMDF की इकाइयों को म्यूचुअल फंड की परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (AMC) द्वारा सदस्यता दी जाएगी इसे वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) के रूप में स्थापित किया गया है

<p>SEBI (AIF) Regulations 2012 Alternative Investment Funds</p>		
<p>Any privately pooled fund, which gets money from sophisticated investors (Indian or foreign), to invest with a defined investment policy.</p> <p style="text-align: right;">कोई भी निजी रूप से बनाया गया फंड, जिसे परिष्कृत निवेशकों (भारतीय या विदेशी) से पैसा मिलता है, एक परिभाषित निवेश नीति के साथ निवेश करने के लिए।</p>		
<p>Category-1</p> <p>They invest in startup, SME, and projects which are socially and economically viable</p> <p>e.g. Angel fund, Venture capital fund, SME fund, Social Venture funds, Infrastructure funds.</p>	<p>Category-2</p> <p>They are not in Category 1 & 3 and don't undertake borrowing.</p> <p>e.g. real estate funds, private equity funds (PE funds), funds for distressed assets</p>	<p>Category-3</p> <p>They use complex trading strategies</p> <p>eg Hedge fund, PIPE fund (Private Investment in Public Equity Fund)</p>
<p>श्रेणी-1</p> <p>वे स्टार्टअप, SME और उन परियोजनाओं में निवेश करते हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं</p> <p>जैसे एंजेल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, SME फंड, सोशल वेंचर फंड, इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड</p>	<p>श्रेणी-2</p> <p>वे श्रेणी 1 और 3 में नहीं हैं और उधार नहीं लेते हैं</p> <p>जैसे रियल एस्टेट फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड, संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए फंड</p>	<p>श्रेणी-3</p> <p>वे जटिल व्यापारिक रणनीतियों का उपयोग करते हैं</p> <p>जैसे हेज फंड, PIPE फंड (सार्वजनिक इक्विटी फंड में निजी निवेश)</p>

<p>Social Stock Exchange</p>	
<p>It is a segment of existing stock exchange. It is a fundraising platform for social enterprises. Social enterprise can be NPO as well as FPE NPO= Not for Profit FPE= For Profit Enterprise NPO can raise funds from ZCZP bonds FPE can raise funds by issuing equity and debt</p>	<p>यह मौजूदा स्टॉक एक्सचेंज का एक खंड है। सामाजिक उद्यमों के लिए धन जुटाने का एक मंच है। सामाजिक उद्यम NPO या FPE हो सकता है NPO = लाभ के लिए नहीं FPE = लाभ के लिए NPO ZCZP बॉन्ड से फंड जुटा सकता है FPE इक्विटी और डेट जारी करके फंड जुटा सकता है</p>
<p>Zero Coupon Zero Principal bonds:</p> <ul style="list-style-type: none"> Used for donation. Give no returns. Not tradable. Issued in dematerialized form only Issuance mode - Public Issue or private placement Minimum application size: ₹ 10,000 Minimum issue size: ₹ 50 Lakh 	<p>जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड :</p> <p>दान के लिए इस्तेमाल। मुनाफा नहीं देगा। व्यापार योग्य नहीं। केवल डिमटेरियलाइज्ड रूप में जारी किया जाता है। जारी करने का तरीका- पब्लिक इश्यू या प्राइवेट प्लेसमेंट आवेदन का न्यूनतम मूल्य : ₹ 10,000 न्यूनतम इश्यू मूल्य : ₹ 50 लाख</p>
<p>Social Enterprises? Fulfil any one of the following conditions: In last 3 years, 67% revenue came from eligible activities In last 3 years, 67% expenditure was on eligible activities In last 3 years, 67% customers benefitted from eligible activities</p>	<p>सामाजिक उद्यम? इनमे से किसी एक शर्त को पूरा करें : पिछले 3 वर्षों में, 67% राजस्व पात्र गतिविधियों से आया पिछले 3 वर्षों में, 67% व्यय पात्र गतिविधियों पर था पिछले 3 वर्षों में, 67% ग्राहकों को पात्र गतिविधियों से लाभ मिला</p>
<p>Eligible activities: hunger, education, financial inclusion, gender equality, etc.</p> <p>Not eligible: Corporate foundations Political / religious activities Profession / trade associations Infra companies (except affordable housing)</p>	<p>योग्य गतिविधियाँ : भूख, शिक्षा, वित्तीय समावेशन, लैंगिक समानता आदि</p> <p>पात्र नहीं : कॉर्पोरेट फाउंडेशन राजनीतिक / धार्मिक गतिविधियाँ व्यवसाय / व्यापार संघ इंफ्रा कंपनियां (किफायती आवास को छोड़कर)</p>
<p>Separate explanation videos are available in English & Hindi</p>	<p>अंग्रेजी और हिंदी में अलग-अलग वीडियो उपलब्ध हैं</p>